

भारत के किसानों की आय दोगुनी करना

यह एडिटरियल 06/03/2023 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित "How to double India's farmers' income" लेख पर आधारित है। इसमें भारत के [किसानों की आय दोगुनी करने से संबंधित समस्याओं और इनके समाधान](#) के तरीकों के बारे में चर्चा की गई है।

संदर्भ

वर्ष 2016 में भारत के प्रधानमंत्री ने उस वर्ष किसानों की आय दोगुनी करने के अपने स्वप्न को साझा किया जिस वर्ष भारत स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करेगा और 'अमृत काल' में प्रवेश करेगा। अब जबकि हम अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं, उस स्वप्न पर पुनर्विचार करने और यह देखने का यह उपयुक्त समय है कि क्या वह साकार हुआ, और यदि नहीं तो इसे साकार करने के लिये क्या किया जा सकता है।

- जब तक किसानों की आय नहीं बढ़ेगी, हम समग्र सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की उच्च वृद्धि को नहीं बनाए रख सकेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि संपन्न शहरी उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के तुरंत बाद फरि वनिरिमाण क्षेत्र को मांग की कमी का सामना करना पड़ता है।
- कृषि कार्यबल के सबसे बड़ा भाग को संलग्न करती है (आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2021-22 में 45.5%)। इसलिये, कृषि पर ध्यान केंद्रित करना समग्र अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक उच्च विकास को सुनिश्चित करने का उपयुक्त तरीका है।
- कृषि पर पृथ्वी की सबसे बड़ी जनसंख्या को खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करने का भी भार है। वर्तमान संदर्भ में यदि इस उद्देश्य की प्राप्ति करनी है तो इसमें ऐसी नीतियाँ शामिल होनी चाहिये जो इस ग्रह के बुनियादी संसाधनों- यथा मृदा, जल, वायु और जैव विविधता की भी रक्षा करें।

किसानों की आय दोगुनी करने से संबद्ध समस्याएँ

- **कृषि नीतियों से संबंधित मुद्दे:**
 - सरकार द्वारा अपनाई गई व्यापार एवं वणिगन नीतियाँ किसानों की आय को दमति कर रही हैं।
 - उदाहरण के लिये: नरियात पर प्रतबंध, वायदा बाजार से कई वस्तुओं का नलिंबन और कृछ वस्तुओं पर स्टॉकगि सीमा लागू करना।
 - ये किसानों की आय के 'अंतरनहिति कराधान' (Implicit Taxation) के छपि हुए नीतगित साधन हैं।
 - भारी सबसडि की नीतिके साथ धान एवं गेहूँ की आश्वस्त एवं पूर्व-नरिधारति सीमा रहति खरिद पर्यावरण के लिये चुनौतियाँ पैदा कर रही है।
- **भूमिका वखिंडन:**
 - भारत में भूमिवखिंडन एक प्रमुख समस्या है। छोटे और सीमांत किसान जनिके पास दो हेक्टेयर से कम भूमि है, भारत में किसानों की कुल संख्या के लगभग 85% भाग का नरिमाण करते हैं।
 - भूमिका यह वखिंडन कृषिकार्यों के पैमाने को सीमति करता है, जसिसे आकारक मतिव्ययति या 'इकोनॉमिजि ऑफ स्केल' (economies of scale) को हासलि करना कठनि हो जाता है।
- **कमजोर अवसंरचना:**
 - भारत में कृषि अवसंरचना कमजोर है, जसिमें अपर्याप्त सचिाई सुवधिएँ, खराब भंडारण सुवधिएँ और कमजोर परविहन नेटवर्क शामिल हैं। इसके परिणामस्वरूप खराब गुणवत्ता की उपज, उपज की बर्बादी और किसानों के लिये कम प्रतलिाभ जैसी स्थिति उत्पन्न होती है।
- **नमिन उत्पादकता:**
 - भारतीय कृषिकी उत्पादकता अन्य देशों की तुलना में कम है। भारत में प्रमुख फसलों की प्रतहिेक्टेयर उपज चीन, ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में कम है।
- **जलवायु परिवर्तन:**
 - जलवायु परिवर्तन का भारतीय कृषिपर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। अनयिमति वर्षा, तापमान वृद्धि और सूखा एवं बाढ़ जैसी चरम मौसमी की घटनाएँ फसल उत्पादन को प्रभावति करती हैं और किसानों की आय को कम करती हैं।
- **मूल्य असंथरिता:**
 - एक स्थरि मूल्य नरिधारण नीतिके अभाव के कारण भारत में कृषि क्षेत्र मूल्य असंथरिता की वशिषता प्रकट करते हैं।
 - कृषि पण्यों की कीमतों में उतार-चढ़ाव के साथ उच्च इनपुट लागत किसानों के लिये अपने उत्पादन एवं वणिगन रणनीतियों की योजना बनाना कठनि कर देते हैं।
- **अपर्याप्त संस्थागत सहायता:**
 - किसानों के लिये ऋण, बीमा और वणिगन सुवधियों के रूप में संस्थागत समर्थन की कमी भी एक प्रमुख चुनौती है।

- लघु और सीमांत किसानों के लिये ऋण एवं बीमा तक पहुँच की कमी है।
- **मानसून पर निर्भरता:**
 - भारतीय कृषि का एक बड़ा भाग मानसून की वर्षा पर निर्भर है।
 - वलिंबति या अपर्याप्त वर्षा फसल उत्पादन और किसानों की आय को प्रभावित करती है।

किसानों के समर्थन के लिये सरकार द्वारा कौन-से कदम उठाये गए हैं?

- सरकार ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये विभिन्न योजनाओं और नीतियों को लागू किया है, जिसमें फसलों के **लिनियुनतम समर्थन मूल्य (MSP)** की वृद्धिकरना, **जैविक खेती** को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय कृषि बाजार का निर्माण करना शामिल है।
- सरकार उर्वरक सब्सिडी प्रदान करती है जिसका बजट 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। यह 'पीएम-किसान' के माध्यम से किसानों को आय सहायता भी प्रदान करती है।
- **पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना** के माध्यम से लघु एवं सीमांत किसानों को कम से कम 5 किलोग्राम प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह का मुफ्त राशन प्राप्त होता है।
- फसल बीमा, ऋण और सचिाई के लिये भी सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- राज्य भी वृहत मात्रा में बजिली सब्सिडी प्रदान करते हैं, विशेष रूप से सचिाई के लिये। कई राज्यों द्वारा कस्टम हायरिंग केंद्रों के लिये कृषि भूशूनरी को भी सब्सिडी दी जा रही है।

आगे की राह

- **समर्थन नीतियों का पुनर्संरखन:**
 - सरकार को उन फसलों की खेती को प्रोत्साहित करना चाहिये जो पर्यावरण के अनुकूल हैं और जल एवं उर्वरक जैसे संसाधनों का कम उपभोग करती हैं।
 - मोटे अनाज, दलहन, तलहन और बागवानी फसलों को कार्बन क्रेडिट प्रदान किया जा सकता है ताकि उनकी खेती प्रोत्साहन मिले।
 - सब्सिडी/समर्थन फसल-तटस्थ (crop-neutral) होना चाहिये या उन फसलों के पक्ष में झुका होना चाहिये जो हमारे ग्रह के संसाधनों के लिये लाभप्रद हैं।
- **उच्च-मूल्य फसलों का प्रसार:**
 - किसानों को अपनी फसलों में विविधता लानी चाहिये और उच्च-मूल्य फसलों (High-Value Crops) को शामिल करना चाहिये जिनकी बाजार में बेहतर मांग है और जो उच्च मूल्य प्राप्त कर सकते हैं।
 - बेहतर बीज, सचिाई तकनीक और संवाहनीय कृषि अभ्यासों पर प्रशिक्षण प्रदान कर ऐसा किया जा सकता है।
- **नगिर्मों के साथ सहयोग:**
 - सरकार किसानों को बेहतर बाजार पहुँच और उनके बाजार जोखिम को कम करने के लिये सुनिश्चिति 'बायबैक' व्यवस्था प्रदान करने के लिये नगिर्मों/कॉरपोरेशन के साथ सहयोग कर सकती है।
 - टोफू, सोया मलिक पाउडर, सोया आइसक्रीम और फ़रोजन सोया योगर्ट जैसे मूल्य-वर्धित उत्पाद के निर्माण के लिये किसानों की उपज का इस्तेमाल करते हुए नगिम द्वारा किसानों को बेहतर कीमतों की पेशकश की जा सकती है।
- **तकनीकी नवाचार:**
 - सरकार को उन नई प्रौद्योगिकियों के विकास के लिये अनुसंधान एवं विकास में निवेश करना चाहिये जो किसानों को उनकी उत्पादकता और लाभप्रदता बढ़ाने में मदद कर सकें। इसमें 'तीसरी फसल' (Third Crop) के रूप में किसानों के खेतों पर सौर पैनलों का उपयोग करना शामिल हो सकता है।

अभ्यास प्रश्न: भारत में किसानों की आय दोगुनी करने की राह की प्रमुख बाधाएँ कौन-सी हैं और इस महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य की प्राप्ति के लिये कौन-से दृष्टिकोण अपनाये जाने आवश्यक हैं?

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

[[[?]]] [[[?]]] [[[?]]] [[[?]]] [[[?]]]

प्र. बागवानी कृषि में उत्पादन, उत्पादकता और आय को बढ़ाने में राष्ट्रीय बागवानी मशिन (NHM) की भूमिका का आकलन करें। किसानों की आय बढ़ाने में यह कहाँ तक सफल हुआ है? (वर्ष 2018)

प्र. देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियाँ और अवसर क्या हैं? खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देकर किसानों की आय में पर्याप्त वृद्धि कैसे की जा सकती है? (वर्ष 2020)

